



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 460]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 11, 1982/आश्विन 19, 1904

No. 460]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 11, 1982/ASVINA 19, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 1982

का० आ० 724 (अ) —केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम 1906 (1906 का 3) की धारा 7 के साथ पठित उनकी धारा 21 द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिक्का निर्माण (नवम एशियाई खेल दिल्ली, 1982 के लिए, एक सौ रुपय, दस रुपय, पञ्चास रुपये और दस पैसे
स्मारक सिक्कों का मानक वजन और उपचार) नियम 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख का प्रवृत्त होंगे।

2. नवम एशियाई खेल दिल्ली, 1982 के लिए निम्न कतिपय अंकित मूल्य के सिक्कों का मानक वजन और अनुपात उपचार

नवम एशियाई खेल दिल्ली, 1982 के सम्मरण में सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन निम्न
निम्नलिखित अंकित मूल्य के सिक्कों का मानक वजन और ऐसे सिक्कों के निर्माण में अनुपात उपचार वैसा होगा जैसा नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट है:—

सारणी

अंकित मूल्य	मानक वजन	अनुपात उपचार	
		संरचना से	मानक वजन से
1	2	3	4
एक सौ रुपय	35 ग्राम	चादी के लिए 2/1000वा घन या ऋण अर्थात् चादी की मात्रा प्रति हजार 498 से 502 तक घट बढ़ सकती है।	1/100वा घन या ऋण अर्थात् वजन 34.65 ग्राम से 35.35 ग्राम तक घट बढ़ सकता है।

1	2	3	4
बस रूप	25 ग्राम	तांबा और रूपा दोनों के लिए 1/100वां धन या ऋण अर्थात् तांबा 74% से 76% तथा रूपा 24% से 26% तक घट बढ़ सकता है।	1/40वां धन या ऋण अर्थात् वजन 21.375 ग्राम से 25.625 ग्राम तक घट बढ़ सकता है।
25 पैसे	2.5 ग्राम	तांबा और रूपा दोनों के लिए 1/100वां धन या ऋण अर्थात् तांबा 74% से 76% तथा रूपा 24% से 26% तक घट बढ़ सकता है।	1/40वां धन या ऋण।
10 पैसे	2.3 ग्राम	मैग्नीशियम 3.5% से 4% शेष भाग एलुमि-नियम।	1/40वां धन या ऋण।

[फा० सं० 1/28 (I)/79 क्वायन]

सी० जी० पथरोज, सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 1982.

S.O. 724(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 21 read with section 7 of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1 Short title and commencement :—

(1) These rules may be called the Coinage (Standard Weight and Remedy of the Commemorative Coins of One hundred Rupees, Ten Rupees Twenty-five Paise and Ten Paise for IX Asian Games Delhi 1982) Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Standard Weight and remedy allowed on coins of certain denominations coined for IX ASIAN GAMES DELHI 1982 :—

The standard weight of the coins of the following denominations, coined under the provisions of section 6 of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906) in commemoration of IX Asian Games Delhi 1982, and the remedy allowed in the making of such coins shall be as specified in the Table below :—

TABLE

Denomination	Standard weight	Remedy allowed	
		In composition	In standard weight
One Hundred Rupees	35 grammes	2/1000th plus or minus for silver that is to say the silver contents could vary from 498 to 502 per Thousand	1/100th plus or minus that is to say the weight could vary from 34.65 grammes to 35.35 grammes.
Ten Rupees	25 grammes	1/100th plus or minus both for copper and nickel that is to say copper could vary from 74% to 76% and nickel from 24% to 26%.	1/40th plus or minus that is to say the weight could vary from 24.375 grammes to 25.625 grammes.
25 Paise	2.5 grammes	1/100th plus or minus for copper and nickel that is to say copper could vary from 74% to 76% and nickel from 24% to 26%.	1/40th plus or minus.
10 Paise	2.3 grammes	Magnesium 3.5% to 4%. Aluminium remainder.	1/40th plus or minus.

[No. F. 1/28(I)/79-Coin]

C.G. PATHROJ,
Under Secy.